



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1160) पटना, शुक्रवार, 27 जून 2025

सं० 01/सा0सु0 योजना-01/2025-1525/स0क0
समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

संकल्प

25 जून 2025

विषय :- राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार निःशक्तता पेंशन योजना अन्तर्गत वर्तमान में पात्र लाभुकों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून, 2025 से रू0 400/- (चार सौ रुपये) प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 1100/- (ग्यारह सौ रुपये) प्रतिमाह करने एवं इसके निमित्त कुल रू0 810,82,59,600/- (आठ सौ दस करोड़ बेरासी लाख उनसठ हजार छः सौ रुपये) के अतिरिक्त वार्षिक व्यय किये जाने की स्वीकृति।

समाज कल्याण विभाग के अधीन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से राज्य के दिव्यांगजनों को, जो इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना की अर्हता नहीं रखते हों, उन्हें व्यापक रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार निःशक्तता पेंशन योजना संचालित की गयी है।

2. इस योजनान्तर्गत किसी भी आय एवं आयुवर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र दिव्यांगजनों को रू0 400/- (चार सौ रुपये) प्रतिमाह पेंशन उनके बैंक खाता में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
3. इस योजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के पश्चात देय पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। वर्तमान में बढ़ती महंगाई एवं अन्य राज्यों द्वारा दिव्यांगजनों को दी जा रही मासिक पेंशन की देय राशि को ध्यान में रखते हुए बिहार निःशक्तता पेंशन योजना अन्तर्गत दी जा रही मासिक पेंशन की राशि में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गयी है।
4. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार निःशक्तता पेंशन योजना अन्तर्गत वर्तमान में पात्र लाभुकों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून, 2025 से रू0 400/- (चार सौ रुपये) प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 1100/- (ग्यारह सौ रुपये) प्रतिमाह करने एवं इसके निमित्त कुल रू0 810,82,59,600/- (आठ सौ दस करोड़ बेरासी लाख उनसठ हजार छः सौ रुपये) के अतिरिक्त वार्षिक व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. प्रस्ताव पर संचिका सं०-01/सा०सु० योजना-01/2025 के टिप्पणी पृष्ठ 16/टि० पर दिनांक-24.06.2025 को मद सं०-37 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बन्दना प्रेयषी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1160-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>